

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

Mv

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 1973/वैशाख 20, 1895

No. 110] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 1973/VAISAKHA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May 1973

G. S. R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States, and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely :—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1973.

(2) Rules 3 to 7 shall be deemed to have come into force on the 9th day of June, 1972 and the remaining provisions of these rules shall come into force at once.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances), Rules, 1957, (hereafter referred to as the said rules), after rule 16, the following rule shall be inserted, namely :—

“16-A (1) Where a Member loses his Steamer Pass or the Spouse's Steamer Pass and a duplicate thereof is required to be issued to him, he shall make an application to the Speaker of the House of the People or the Chairman of the Council of States, as the case may be, explaining the circumstances under which the loss occurred and if the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied, a duplicate Steamer Pass or the Spouse's Steamer Pass shall be issued to the Member.

(2) Where a Member or his Spouse travels by steamer without the Steamer Pass, he shall be governed by the ordinary rules in regard to such travel”

3. In rule 17-A of the said rules, for the word, figure and letter ‘Section 6A’, the word, figure and letter ‘Section 6B’, shall be substituted.

4. In rule 17-B of the said rules, for the word, figure and letter 'Section 6A' the word, figure and letter 'Section 6B' shall be substituted.

5. After rule 17-B of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"17-C. Whenever a Member undertakes a journey by using the Steamer Pass provided under section 6A, he shall fill in a Member's Steamer Journey Form as set out in Form B-III before the commencement of the journey and hand over the form to the Master of the Vessel on the completion of the voyage. For this purpose a booklet containing twentyfive machine-numbered copies of Form B-III shall be supplied to the Member concerned.

17-D. Whenever the Spouse of a Member undertakes a journey by using the Steamer Pass provided under section 6A, a Steamer Journey Form as set out in Form B-IV shall be filled in by the Member before the commencement of the journey. The form so filled shall be handed over to the Master of the Vessel on the completion of the voyage. For this purpose, a booklet containing machine-numbered copies of Form B-IV to be used by the Spouse of the Member, shall be supplied to the Member, on request.

17E. Whenever a person accompanies a Member, when he travels by steamer by using the Steamer Pass provided under section 6-A, a Steamer journey Form as set out in Form B-V shall be filled in by the Member before the commencement of the Journey. The Form so filled shall be handed over to the Master of the Vessel on the completion of the voyage. For this purpose, a booklet containing twentyfive machine-numbered copies of Form B-V shall be supplied to the Member."

6. In rule 18-A of the said rules, for the letters and figures "Rs. 0-50 P. per mile", the figures and words "0-32 paise per kilometer" shall be substituted.

7. After 'Form B-II', the following Form shall be inserted, namely :—

B—III

[See rule 17-C]

No. _____

No. _____

LOK SABHA SECRETARIAT

LOK SABHA SECRETARIAT

RAJYA SABHA SECRETARIAT

RAJYA SABHA SECRETARIAT

MEMBER'S STEAMER JOURNEY FORM
(BOOK FOIL)

MEMBER'S STEAMER JOURNEY FORMS
(FOIL) (To be delivered to the Master of the
Vessel on the completion of the voyage).

I am travelling by _____

I am travelling by _____

Class (without diet) from _____

Class (without diet) from _____

_____ (Port) to _____

_____ (Port) to _____

_____ (Port), and have commenced my journey on _____ 19__.

_____ (Port), and have commenced my journey on _____ 19__.

My Steamer Pass No. is _____

My Steamer Pass No. is _____

Div. No. _____

Div. No. _____

Member, Lok Sabha
Rajya Sabhs

Member, Lok Sabha
Rajya Sabha

(To be retained by Member and returned to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat after use)

(To be handed over to the Master of the Vessel on the completion of the voyage).

B—IV

[See rule 17-D]

No. _____
LOK SABHA SECRETARIAT

RAJYA SABHA SECRETARIAT

SPOUSE'S STEAMER JOURNEY FORM
(BOOK FOIL)My wife/husband, Shrimati/Shri _____ is
travelling by _____ class (without
diet) from _____

(usual place of residence of Member)

(nearest port in the mainland of India)
to _____

(nearest port in the mainland of India)

(usual place of residence of Member)

commencing the journey on _____

in respect of _____ Session Lok Sabha

Rajya Sabha

My Steamer Pass No. is _____

My Spouse's Steamer Pass No. is _____

Div. No. _____

Lok Sabha

Member, _____

Rajya Sabha

be retained by Member and returned to
Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat after
use)No. _____
LOK SABHA SECRETARIAT

RAJYA SABHA SECRETARIAT

SPOUSE'S STEAMER JOURNEY FORM
(FOIL) (To be delivered to the Master of the
Vessel on the completion of the voyage).My wife/husband, Shrimati/Shri _____ is
travelling by _____ class (without
diet) from _____

(usual place of residence of Member)

(nearest port in the mainland of India)

to _____

(nearest port in the mainland of India)

(usual place of residence of Member)

commencing the journey on _____

in respect of _____ Session, Lok Sabha

Rajya Sabha

My Steamer Pass No. is _____

My Spouse's Steamer Pass No. is _____

Div. No. _____

Lok Sabha

Member, _____

Rajya Sabha

(To be handed over to the Master of the Vessel
on the completion of the voyage)

B—V

[See rule 17-E]

No. _____
LOK SABHA SECRETARIAT

RAJYA SABHA SECRETARIAT

STEAMER JOURNEY FORM FOR THE
USE OF ONE PERSON TO ACCOMPANY
THE MEMBER OF PARLIAMENT

(BOOK FOIL)

Certified that Shri/Shrimati _____ who is
accompanying me has travelled from _____

(Port)

to _____ (Port)

in the lowest class (without diet), commencing
the journey on _____ 19—

My Steamer Pass No. is _____

Div. No. _____

Lok Sabha

Member, _____

Rajya Sabha

(To be retained by Member and returned to
Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat after
use).No. _____
LOK SABHA SECRETARIAT

RAJYA SABHA SECRETARIAT

STEAMER JOURNEY FORM FOR THE
USE OF ONE PERSON TO ACCOMPANY
THE MEMBER OF PARLIAMENT(FOIL) (To be delivered to the Master of the
Vessel on the completion of the voyage).Certified that Shri/Shrimati _____ who is
accompanying me has travelled from _____

(Port)

to _____ (Port)

in the lowest class (without diet), commen-
cing the journey on _____ 19—

My Steamer Pass No. is _____

Div. No. _____

Lok Sabha

Member, _____

Rajya Sabha

(To be handed over to the Master of the Vessel
on the completion of the voyage).

[No. F. 3/1/MSA/72-Vol. I]

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा० का० नि० 243(अ).—संसद सदस्यों के संबन्धित अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्, संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 में और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, जो उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित राज्यसभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुरा कर दिए गए हैं :— अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) संशोधित नियम, 1973 है।

(2) 3 से 7 तक नियम, 9 जून, 1972 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और इन नियमों के शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“16—क(1) जहां कोई सदस्य अपना स्टीमर पास या अपनी पत्नी या अपनी पति का स्टीमर पास खो देता है और उसकी दूसरी प्रति उसे जारी करने की आवश्यकता होती है, वहां वह, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति को, जिन परिस्थितियों में पास खो गया था उन्हें स्पष्ट करते हुए आवेदन करेगा और यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का समाधान हो जाए, तो सदस्य को दूसरा स्टीमर पास या उसकी पत्नी या उसके पति का स्टीमर पास जारी किया जाएगा।

(2) जहां कोई सदस्य या उसकी पत्नी या उसका पति स्टीमर द्वारा स्टीमर पास के बिना यात्रा करता / करती है, वहां वह ऐसा यात्रा के बारे में साधारण नियमों द्वारा शामिल होगा / होगी।”

3. उक्त नियम के नियम 17—क में धारा 6क शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, ‘धारा 6ख’ शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 17—ख में “धारा 6क” शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर “धारा 6—ख” शब्द अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 17—घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“17—ग. जब कभी कोई सदस्य धारा 6क के अधीन उपरिष्ठित स्टीमर पास का उपयोग करके यात्रा करता है, यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व वह प्रस्ताव III में यथा उपरिष्ठित सदस्य का स्टीमर यात्रा प्रारंभ करेगा और तबयात्रा

की समाप्ति पर प्ररूप को जलयान के मास्टर को देगा । इस प्रयोजनार्थ प्ररूप ख-III की मशीन-संख्यांकित 25 प्रतियों की पुस्तिका सम्बद्ध सदस्य को प्रदत्त की जाएगी ।

17-घ जब कभी किसी सदस्य की पत्नी या उसका पति धारा 6क के अधीन उपबन्धित स्टीमर यात्रा का उपयोग करके यात्रा करती है या करता है तो वह सदस्य यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व प्ररूप ख-IV में यथा उपवर्णित स्टीमर यात्रा प्ररूप भरेगा । इस प्रकार भरा गया प्ररूप जलयान की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को दिया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ सदस्य की पत्नी या उसके पति द्वारा उपयोग के लिए प्ररूप ख-IV की मशीन-संख्यांकित प्रतियाँ की पुस्तिका, प्रार्थना करने पर, सदस्य का प्रदत्त की जाएगी ।

17-ङ. धारा 6-क के अधीन उपबन्धित स्टीमर यात्रा का उपयोग करके यात्रा करने समय किसी सदस्य के साथ जब कभी कोई व्यक्ति हो, तो वह सदस्य यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व प्ररूप ख-V में यथा उपवर्णित स्टीमर यात्रा प्ररूप भरेगा । जलयान की समाप्ति पर इस प्रकार भरा गया प्ररूप जलयान के मास्टर को दिया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ प्ररूप ख-V की मशीन-संख्यांकित 25 प्रतियों की पुस्तिका सदस्य को दी जाएगी ।

6. उक्त नियम के नियम 18-क में "रूपये 0 50 पैसे प्रति किलोमीटर " शब्दों और अंकों के स्थान पर "रूपये 0.32 पैस प्रति किलोमीटर" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

7. "प्ररूप ख- " क पञ्चात, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

ख-III

[नियम 17-ग देखिए]

संख्या _____

संख्या _____

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

सदस्य का स्टीमर यात्रा प्ररूप
(पुस्तक पूर्ण)

सदस्य का स्टीमर यात्रा प्ररूप
(पूर्ण) (जलयान की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

मैं _____ श्रेणी (बिना
आहार) में _____
(पत्तन) का यात्रा कर रहा हूँ और
मैंने अपनी यात्रा का प्रारम्भ _____
19— को किया है ।

मैं _____ श्रेणी (बिना आहार)
में _____ (पत्तन) से _____
(पत्तन) को यात्रा कर रहा हूँ और
मैंने अपनी यात्रा का प्रारम्भ _____
19— को किया है ।

मेरे स्टीमर पास की संख्या ————— है ।	मेरे स्टीमर पास की संख्या ————— है ।
विभाजन सं० —————	विभाजन सं० —————
लोकसभा	लोकसभा
सदस्य —————	सदस्य —————
राज्य सभा	राज्य सभा
(सदस्य द्वारा रखने और उपयोग के पश्चात् (जलयान की समाप्ति पर जलयान के लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय को मास्टर को देने के लिए) । वापस करने के लिए)	

ख—IV

[नियम 17-घ देखिए]

संख्या	संख्या
लोक सभा सचिवालय	लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा सचिवालय
पत्नी या पति का स्टीमर यात्रा प्ररूप (पुस्तक पर्ण)	पत्नी या पति का स्टीमर यात्रा प्ररूप । पर्ण (जलयान की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)
मेरी पत्नी/मेरा पति, श्रीमती/श्री ————— श्रेणी (बिना आहार) में ————— (सदस्य के निवास का प्रायिक स्थान)	मेरी पत्नी/मेरा पति श्रीमती/श्री ————— श्रेणी (बिना आहार) में ————— (सदस्य के निवास का प्रायिक स्थान)
(भारत की भूमि में निकटतम पत्तन) से	(भारत की भूमि में निकटतम पत्तन) से
(भारत की भूमि में निकटतम पत्तन)	(भारत की भूमि में निकटतम पत्तन)
(सदस्य के निवास का प्रायिक स्थान) को ————— 19 को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोकसभा/ राज्य सभा के ————— सत्र के सम्बन्ध में यात्रा कर रही है/कर रहा है ।	(सदस्य के निवास का प्रायिक स्थान) को, ————— 19 को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोक सभा/राज्य सभा के ————— सत्र के सम्बन्ध में यात्रा कर रही है/कर रहा है ।

मेरे स्टीमर की सं०	है	मेरे स्टीमर पास की सं०	है ।
मेरी पत्नी/मेरा पति के स्टीमर पास की		मेरे पत्नी/मेरे पति के स्टीमर पास की	
संख्या	है ।	संख्या	है ।
विभाजन संख्या		विभाजन संख्या	

लोकसभा
सदस्य _____
राज्य सभा

लोकसभा
सदस्य _____
राज्यसभा

(सदस्य द्वारा रखने के लिए और उपयोग के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)

(जलयान की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

ख—V

[नियम 17—ऊ देखिए]

संख्या _____
लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

संख्या _____
लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा सचिवालय

संसद् सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए स्टीमर यात्रा प्ररूप ।

(पुस्तक पर्ण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____, जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है/कर रही है, उसने _____ (पत्तन) से _____ (पत्तन) को (बिना आहार) निम्नतम श्रेणी में— 19 को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है ।

संसद् सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए स्टीमर यात्रा प्ररूप ।

(पर्ण) (जलयान की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए) ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____, जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है/कर रही है, उसने _____ (पत्तन) से _____ (पत्तन) को (बिना आहार) निम्नतम श्रेणी में— 19 को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है ।

मेरे स्टीमर पास की सं०----- है ।

मेरे स्टीमर पास की सं०----- है ।

विभाजन सं० -----

विभाजन सं० -----

लोक सभा

लोक सभा

सदस्य -----

सदस्य -----

राज्य सभा

राज्य सभा

(सदस्य द्वारा रखने के लिए और उपयोग के (जलयानों की समाप्ति पर जलयानों के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय मास्टर को देने के लिए) । को वापस करने के लिए)

[सं० फ़ा० 3/1/एम० एस० ए०/72-बोख 1]

एम० एल० शकधर, सचिव ।